



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या- 444

12/06/2017

राज्यपाल को बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने
इंडियन रेडक्रॉस सोसाईटी, बिहार स्टेट ब्रांच के लिए
12.5 लाख रुपये का चेक समर्पित किया

पटना, 12 जून 2017 ::-आज राजभवन में महामहिम राज्यपाल-सह-इंडियन रेडक्रॉस सोसाईटी, बिहार ब्रांच के अध्यक्ष श्री राम नाथ कोविन्द से मुलाकात कर उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के जेनरल मैनेजर श्री बी.के. मोहनथी, जोनल मैनेजर, श्री एस.आर. पाठी एवं डिप्टी जोनल मैनेजर श्री अमरेन्द्र कुमार ने अपने बैंक की तरफ से 12.5 लाख (साढ़े बारह लाख) रुपये का 'प्रतिकृति चेक' (Replica Cheque) इंडियन रेडक्रॉस सोसाईटी, बिहार स्टेट ब्रांच के लिए समर्पित किया।

राज्यपाल श्री कोविन्द ने इस कल्याणकारी कार्य के लिए बैंक की प्रशंसा की और उम्मीद जाहिर की कि यह बैंक आगे भी देश और समाज के लिए किये जानेवाले कल्याणकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसाईटी, बिहार स्टेट ब्रांच के चेयरमैन डॉ. बी.बी. सिन्हा ने बैंक अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. ई.एल.एस.एन. बाला प्रसाद तथा रेडक्रॉस सोसाईटी, बिहार के वाइस चेयरमैन श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जायसवाल आदि भी उपस्थित थे।

.....